

## प्रेस विज्ञप्ति

### के0जी0एम0यू और रायबरेली के फॉर्मासियूटिकल्स इंस्टीट्यूट अब साथ में करेंगे शोध कार्य, हुआ करार

आज दिनांक 17 सितंबर 2018 को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा रायबरेली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मासियूटिकल्स ऐजुकेशन एंड रिसर्च के बीच एक **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)** पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू पर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति प्रोफेसर एम0एल0बी0 भट्ट एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मासियूटिकल्स ऐजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक डॉ0 एस0जे0फलोरा ने हस्ताक्षर किए।

इस एमओयू के तहत दोनों संस्थानों ने 6 सूत्रीय कार्यों पर अपनी सहमति जताई। जिसके अंतर्गत दोनों संस्थान संयुक्त रूप से शोध कार्यों में एक दूसरे की मदद से काम करेंगे। इसके साथ ही दोनों संस्थान आपस में सामंजस बैठाने के लिए साथ मिलकर सम्मेलन, संगोष्ठियों, ग्रीष्मकालीन विद्यालय, प्रशिक्षण व्याख्यान आदि का संयुक्त रूप से आयोजन करेंगे। इस एमओयू के तहत दोनों संस्थान ने छात्रों और शोध विद्वानों के द्विपक्षीय लाभों के लिए आवश्यकता और अनुभव के आधार पर शिक्षण संकाय के आदान प्रदान के लिए मिलकर काम करने का निर्णय किया है। साथ ही दोनों संस्थान एक दूसरे के सहयोग के लिए पाठ्य पुस्तक, पत्रिका और अन्य शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण सहायता का आदान प्रदान करेंगे।

#### **Momerandum of understanding**

1. दोनों संस्थान शोध कार्यों में संयुक्त रूप से सहकारी अनुसंधान और परामर्श के लिए काम करेंगे।
2. ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में सुधार के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियों, संगोष्ठी, ग्रीष्मकालीन विद्यालय, प्रशिक्षण व्याख्यान आदि का संयुक्त संगठन इत्यादि।
3. संकाय विनिमय कार्यक्रम: दोनों संस्थान छात्रों और शोध विद्वानों के द्विपक्षीय लाभों के लिए आवश्यकता और अनुभव के आधार पर शिक्षण संकाय के आदान-प्रदान के लिए मिलकर काम करेंगे।
4. छात्र विनिमय कार्यक्रम: छात्र की व्यापक शैक्षिक समझ और जोखिम, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण और इंटरनशिप / प्लेसमेंट और इसी तरह की पहल की सुविधा के लिए छात्र की अंतर-संस्थागत यात्रा को प्रोत्साहित करना।
5. शोध विद्वान विनिमय कार्यक्रम: व्यापक अकादमिक समझ और जोखिम के लिए शोध विद्वान द्वारा सह-संचालन और बातचीत, अंतर-संस्थागत यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए।
6. ज्ञान संसाधन का आदान-प्रदान: पाठ्य पुस्तक, पत्रिका और शिक्षण सामग्री आदि का साझा करना, पाठ्य पुस्तक, ऑडियो-वीडियो, प्रकाशन, रिपोर्ट और अन्य शिक्षण सहायता इत्यादि।